



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1983/साध 19 1904
No 22] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1983/MAGHA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 5-ईटीसी (पीएम)/83

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1983

विषय —1982-83 के दौरान अरुण्टी के तेल की निर्यात नीति

सि.सं.38(4)/82-ई-2.—अप्रैल, 1982—मार्च, 1983 के दौरान केरल के तेल की नीति के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 17-ईटीसी (पीएम)/82 दिनांक 23 अप्रैल, 1982 के साथ पढ़ी जाने वाली आयात-निर्यात नीति पुस्तक 1982-83 (जिल्द-2) के नीति विवरण की पृष्ठ सं. 16 पर की क्रम सं. 31 (2) और पृष्ठ सं. 95 पर की क्रम सं. 4-ए की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. जबकि भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. के माध्यम से अरुण्डी के तेल के निर्यात के लिए सरणीबद्ध नीति रहेगी, यह निश्चय किया गया है कि गुजरात राज्य निर्यात निगम लि. और आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के अतिरिक्त निजी पार्टियों की भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31 मार्च, 1983 तक केवल सामान्य मुद्रा क्षेत्र को अरुण्डी के तेल के सीधे निर्यात के लिए अनुमति होगी :—

- (1) निर्यात राज्य व्यापार निगम के पास पंजीकृत संविदाओं के मुद्दे अनुमोदित होंगे ।
- (2) राज्य व्यापार निगम द्वारा किसी किस्म के सेवा प्रभार नहीं लगाये जाएंगे ।
- (3) राज्य व्यापार निगम के पास पंजीकृत संविदाओं के मुद्दे अरुण्डी के तेल के लदान केवल 31-3-1983 तक ही अनुमोदित होंगे और यदि कोई शेष मात्रा जो उपर्युक्त संविदाओं के अधीन आती हो और जिसका पोतलदान 31-3-1983 तक न किया गया हो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी ।

3. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. सामान्य मुद्रा क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को निर्यात करता रहेगा और निर्यातों का अनुवर्णन भी करेगा ।

रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th February, 1983

PUBLIC NOTICE NO. 5-ETC(PN)/83

Subject :—Export Policy of Castor Oil during 1982-83.

F. No. 38(4)/83-EIL.—Attention is invited to S. No. 31(iii) at page 16 of Policy Statement and S. No. 4A on page 95 of Import and Export Policy Book 1982-83 (Vol. II), read with Public Notice No. 17-ETC(PN)/82, dated the 23rd April, 1982, regarding export policy of Castor Oil during April 1982—March, 1983.

2. While the canalisation policy for export of Castor Oil through the State Trading Corporation of India Ltd., will continue to be operative, it has been decided that in addition to the Gujarat State Export Corporation Ltd., and the Andhra Pradesh State Corporation Ltd., private parties will also be allowed to export Castor Oil direct only to General Currency Areas upto 31st March, 1983, subject to the following conditions :—

- (i) Export will be allowed against the contracts registered with the S.T.C.
- (ii) No service charges will be levied by S.T.C.

-
- (iii) Shipments of Castor Oil against the contracts registered with STC will be allowed only upto 31-3-1983 and the balance quantity, if any, covered by the above contracts not shipped by 31-3-1983 would automatically lapse.

3. The State Trading Corporation of India Ltd., will continue to export Castor Oil to all areas, including General Currency Area and also monitor the exports.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of
Imports & Exports

